



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143} नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 1977/चैत्र 4, 1899

No. 143} NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 1977/CHAITRA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th March 1977

S.O. 257(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1977, as the date on which the said Act shall come into force in respect of employments in relation to electricity, gas (including steam) and water specified in the Schedule annexed hereto

THE SCHEDULE

1. Electricity

(i) Generation and transmission of electric energy.

(ii) Distribution of electric energy to household, industrial and commercial and other users.

2. Gas (including steam)

Manufacture of gas in gas works and distribution through mains to household, industrial, commercial and other users

3. Water

Water supply, that is to say, collection, purification and distribution of water.

[No. S-42013/14/76-WC.]

भ्रम संज्ञालय**अधिसूचनाएं**

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1977

क्र. 257(अ).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहली अप्रैल, 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विद्युत, गैस (जिसमें स्टीम भी सम्मिलित है) और जल से सम्बद्ध नियोजनों के बारे में प्रदत्त होगा।

अनुसूची**1. विद्युत**

(1) विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और सन्प्रेषण।

(2) घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा का वितरण।

2. गैस (जिसमें स्टीम भी सम्मिलित है)

गैस के कारखानों में गैस का विनिर्माण और घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक एवं अन्य उपभोक्ताओं को मुख्य लाइनों (मेन्स) के माध्यम से उसका वितरण।

3. जल

जल प्रदाय, अर्थात् जल का संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण।

[सं. एस-42013/14/76-डब्ल्यू. सी.]

S.O. 258(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby specifies the employments in relation to electricity, gas and water specified in the schedule annexed hereto, for the purpose of constitution of one or more Advisory Committees by the appropriate Government to advise it with regard to the extent to which women may be employed in such employments.

THE SCHEDULE**1. Electricity**

(i) Generation and transmission of electric energy.

(ii) Distribution of electric energy to household, industrial, commercial and other users.

2. Gas (including steam)

Manufacture of gas in gas works and distribution through mains to household, industrial, commercial and other users.

3. Water

Water supply, that is to say, collection, purification and distribution of water.

[No. S-42013/14/76-WC.]

T. S. SANKARAN, Addl. Secy.

का० प्रा० 258(अ).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विद्युत, गैस और जल से सम्बद्ध नियोजनों को, समुचित सरकार द्वारा एक या अधिक सलाहकार समितियाँ गठित करने के लिए निर्दिष्ट करती है, जो इसे इस सम्बन्ध में सलाह देगी कि ऐसे नियोजनों में किस सीमा तक महिलाओं को नियोजित किया जाए।

अनुसूची

1. विद्युत

(1) विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और संप्रेषण।

(2) घरेलू, औद्योगिक वाणिज्यिक और अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा का वितरण।

2. गैस (जिसमें स्टीम भी सम्मिलित है)

गैस के कारखानों में गैस का विनिर्माण और घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक एवं अन्य उपभोक्ताओं को मुख्य लाइनों (मेन्स) के माध्यम से उसका वितरण।

3. जल

जल प्रदाय, अर्थात् जल का संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण।

[मं० एस-42013/14/76-डब्ल्यू० सी०]

टी० एस० शंकरन, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

